

September 07, 2023

| Scrip Code: 543272 | Symbol: EASEMYTRIP |
|---------------------------|---|
| FortMumbai – 400001 | East, Mumbai – 400051 |
| P J Towers, Dalal Street, | Exchange Plaza, Bandra Kurla Complex, Bandra |
| BSE Ltd. | National Stock Exchange of India Limited (NSE). |

<u>Subject: Compliance under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 ("Listing Regulations")</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to provisions of Regulation 47 (3) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the newspaper clippings regarding publication of the notice of 15th Annual General Meeting dated September 06, 2023, published in Financial Express (English) and Jan Satta (Hindi) on September 07, 2023 are enclosed.

Kindly take the same on your record.

Thanking you,

For Easy Trip Planners Limited

PRIYANKA TIWARI Digitally signed by PRIYANKA TIWARI Date: 2023.09.07 14:51:15

Priyanka Tiwari

Group Company Secretary and Chief Compliance Officer

Membership No.: A50412

Easy Trip Planners Ltd.

Registered office: Building No. - 223, Patparganj Industrial Area, New Delhi - 110092 (India)























FINANCIAL EXPRESS

idated revenue of ₹1,207 crore

and consolidated Ebitda of

crore in Impresario Entertain-

ment and Hospitality last year.

IndiaRF, said, "We believe the

business needs the necessary

capital infusion for it to acquire

scale and move upwards in the

growth trajectory. We are com-

mitted to invest further pri

mary capital into the businesses

to expand capacity on back of

growth from newer geogra-

phies and investment in new

product development across

both API and CRAMS, to provide

a larger portfolio of products to

PepsiCo to

set up 1st

food plant

PEPSICO INDIA ON Wednes-

day said that it will invest ₹778

crore to set up its first food

manufacturing plant in Nal-

The plant is proposed to be

operational by 2025. Spread

over 44.2 acre, the new plant

aims to generate direct and

indirect employment for 500

people, the company said in a

also signed a tripartite MoU

with Assam Skill Develop-

ment Mission and Directorate

of Employment and Crafts-

PepsiCo India said it has

in Assam

bari, Assam.

statement.

its customers."

The fund invested ₹550

Shantanu Nalavadi, MD,

₹256 crore in FY23.

GRID INTEGRATION

Cabinet nod to ₹3,760-cr VGF for battery storage

Scheme to help create 4,000 MWh battery storage

MANISH GUPTA New Delhi, September 6

THE CABINET ON Wednesday approved an outlay of ₹3,760 crore to spur investments in battery energy storage systems (BESS) via viability gap funding.While the scheme that provides VGF of up to 40% of capital cost of beneficiary projects will run for three years, the budgetary funds sanctioned will be disbursed in five tranches till FY31, information and broadcasting minister Anurag Thakur said.

The scheme will help create 4,000 megawatt hour (MWh) of BESS, and have a catalytic role in setting up of renewable energy capacities, for which storage systems are critical. "Designed to harness the potential of renewable energy sources such

POWER-PACKED SCHEME



■ The scheme that provides VGF of up to 40% of capital cost of beneficiary projects will run for three years

■ The budgetary funds sanctioned will be disbursed in five tranches till FY31

■ The scheme will help create 4,000 megawatt hour (MWh) of BESS

as solar and wind power, the scheme aims to provide clean, reliable and affordable electricity to citizens,"Thakur said.

The funding, which aims at reducing cost of energy storage for companies and consumers, is conditional to the fact that 85% of the BESS capacity will be made available to distribution companies (discoms). "This will not only enhance the integration of renewable

energy into the electricity grid, but also minimize wastage while optimiding the utilisation of transmission networks," the power ministry said. The selection of BESS developers for VGF grants will be done through competitive bidding. The scheme for 4,000 MWh storage capacity is likely

The scheme targets achiev-

to result in an investment of

more than ₹9,400 crore.

ing a levelized cost of storage (LCoS) ranging ₹5.50-6.60 per kilowatt hour (kWh), making stored renewable energy a viable option for managing peak power demand across the country. India has increased its renewable energy capacity from 116 giga watt (GW) in March 2018 to 172 GW in March 2023, and plans to increase the same to 485 GW by 2030. It plans to hike the share of non-fossil in its energy mix from 23% to 40% by 2030. However, India does not

have battery storage capacity, leading to wastage of power. As the cost of battery storage is very high, the power ministry has devised the scheme to make it viable to help reduce consumption of fossil fuel. "Battery-stored power is used during peak hours, including night time. This gap funding will make power from battery storage at least cheaper than the cost of power during peak hours," said Thakur.

Govt asks traders, importers to disclose masur stock

SANDIP DAS New Delhi, September 6

TO PREVENT HOARDING of the stocks, the government on Wednesday asked traders and importers to mandatorily disclose stocks of masur (lentils) so that supplies in the market

are not disrupted.

Rohit Kumar Singh, secretary, department of consumers, said that any "undisclosed stocks if found, will be considered as hoarding and suitable action under the essential commodities act will be initiated."

He said that when imports of lentils from Canada and tur (arhar) varieties of pulses from African countries have increased, a few players are trying to 'manipulate' the market against the interest of the consumers. The government is closely monitoring the supply situations of pulses for ensuring availability at reasonable prices in the festival season, an official statement said.

₹2.44-trn investments seen in RE evacuation infra

MANISH GUPTA New Delhi, September 6

RAGHAVENDRA KAMATH

INDIA RESURGENCE FUND

(IndiaRF), promoted by Piramal

Enterprises and global investor

Bain Capital, will acquire active

pharmaceutical ingredients

and contract research and man-

ufacturing services business of

Ind-Swift Laboratories for

business through Synthimed

Labs, a portfolio company of

IndiaRF, Ind-Swift said on

an intermediate manufactur-

ing facility from the promoter

Synthimed will also acquire

The fund is acquiring the

₹1,650 crore.

Wednesday.

group.

Mumbai, September 6

THE GOVERNMENT HAS projected aggregate investments of ₹2,44,000 crore to set up 81,000 circuit kms (CKm) of transmission lines for evacuation of 500 giga watt (GW) renewable energy by 2030 even as it plans to supply power from the Gulf to Singapore.

"We plan to evacuate up to 500 GW renewable energy (RE) from RE-rich areas like Ladakh, Rajasthan and also areas of wind energy in Tamil Nadu and Gujarat to facilitate seamless transfer of power across the country," said Ajay Tewari, additional secretary, Ministry of Power. "We have the expertise in this and we will take it forward to connect India on both the sides – east and west. For which, we are having talks with our partners in the Gulf and in Singapore for direct connectiv-

ity," he said. Power transmission system in the country is geared up to provide RE across to Nepal, Bangladesh, Bhutan, Myanmar and Sri Lanka, he said, adding that interconnections with Sin-

gapore will also ensure energy security to the Andaman and Nicobar Islands.

IndiaRF acquires Ind-Swift

business for ₹1,650 crore

PHARMA DEAL

■ To buy Ind-Swift's APIs

and contract research and

manufacturing services biz

■ IndiaRF is promoted by

global investor Bain Capital

IndiaRF, is in talks with its

limited partners (LPs) to raise

its second fund targeting up to

\$1 billion, reports said recently.

The first fund had a corpus of

\$629 million with main LPs,

Ind-Swift reported a consol-

including CPPIB and IFC.

Piramal Enterprises and

Power minister RK Singh, through a video message, said the concept of transnational grid interconnections is founded on the basic fact that the sun never sets and that round-the-clock (RTC) renewable energy will be essential to transition to net zero.

"But for RTC, renewable

energy storage is necessary and storage is expensive. We had a bid for 1,000 MWh of storage capacity and the rate came to Rs 10 per kWh. Other option is OSOWOG or the transnational grid. "The idea is to connect countries in different time zones so

that when solar energy is produced in one time zone it can be used in other time zones where the sun has set. This will do away with the need for storage," he said. While RTC renewable

establish extra capacity for

reserves if countries are con-

nected across time zones, he

added.

man training for fostering women empowerment and to enhance women employability in the region. The plant targets to intake 100% diverse talent and aim energy will be cheaper, it will also do away with the need to

ing atleast 75% women representation, and intends to set up its first Community Learning Centre at Women's ITI campus, Nalbari, to upskill women over the next two **FE BUREAU** years.

Sugar prices at 6-yr high amid supply crunch fears

SANDIP DAS

New Delhi, September 6

WHOLESALE SUGAR PRICES have touched ₹37.75/kg, highest since 2017, amid expectation of a fall in output because of deficient rainfall in Maharashtra and Karnataka.

The prices have risen by around 3% from the level seen two weeks back.

Trade sources told *FE* that the possibility of decline in production next season (2023-24) starting on October 1, could force the government against granting sugar exports quota for ensuring adequate domestic supplies.

The government is also

considering a proposal to impose stock holding limits for wholesalers, prescribing the maximum quantity of sweetener they can keep in order to check any price rise. The last stock limits were imposed for the sweetener in 2016.

Sources said ex-mill prices of sugar had increased by ₹3/kg to ₹37/38 a kg from ₹34/35 a kg, which prevailed a fortnight back.

Sources said that sugar production in the 2023-24 season (Oct-Sept) likely to fall to around 31 million tonne (MT) from 32.5 MT in the current season because of deficit rainfall in key producing states of Maharashtra and Karnataka, according to initial industry



assessment. While domestic demand for sugar is around 27.3 MT, more than 4 MT will be supplied for the ethanol production. The government will release sugar production estimates by the end of this month. As on September 1, overall sugarcane acreage

stood at 5.9 million hectares (MH), marginally higher than approve a second tranche of 5.5 MH in the previous year.

"Increase in ex-mill prices of sugar would start reflecting an increase in retail prices in the next two weeks," a senior official associated with cooperative sugar milL, told FE.

According to the department of consumer affairs, modal retail prices of sugar were reported at ₹42/kg on Wednesday, which had been unchanged in the last four months. Six months back, modal retail sugar prices were ₹40/kg. Retail inflation for sugar rose by 3.57% in July 2023 on year while a year ago the price rise was 5.22%.

In the current season, the

United Arab Emirates and Djibouti have a major share in the total sugar exports. In 2021-22 season, India exported a record 11.2 MT of

government has decided not to

sugar exports beyond 6 MT.

This follows inputs received by

the food ministry on the crop

prospects from the various key

sugarcane producing regions.

Indonesia, Bangladesh,

sugar. Consulting firm Crisil in its report in July had stated that higher domestic sugar prices and increasing sales of ethanol will help offset the rise in sugarcane cost and lower exports in fiscal 2024, leading to stable operating profitability for integrated sugar mills.



CHANDRAYAAN



Follow us on 🚮 🛛 📵 📭 🛅 🤚

Notice to the Members of the Company with respect to the 15th Annual General Meeting and remote e-voting Information

Notice is hereby given that the fifteenth (15th) Annual General Meeting ("AGM") of the member of Easy Trip Planners Limited will be held on Friday, September 29th 2023 at 04:00 PM Indian Standard Time ("IST") through Video Conferencing/other Audio-Visual Means ("OAVM") to transact the business as set out in the Notice of the 15th AGM. In accordance with General Circular No. 02/2021 dated January 13, 2021 read together with the General Circular No. 20/2020 dated 5 May, 2020, 17/2020 dated

EaseMyTrip

EASY TRIP PLANNERS LIMITED

CIN: L63090DL2008PLC179041

Registered Office: 223, FIE Patparganj Industrial Area Delhi 110092, India

Website - www.EaseMyTrip.com | email - emt.secretarial@easemytrip.com

April 13, 2020, 14/ 2020 dated April 8, 2020 and subsequent circular issued in this regard latest being 2/2022 dated May 05, 2022 issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA) and in accordance with SEBI Circular No. circular no. SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 on May 13, 2022 and other applicable circulars issued in this regard by the Securities and Exchange Board of India (SEBI) (collectively referred as "Circulars"), the notice of the AGM, integrated Report and Annual Financial Statements for the Financial Year 2022-2023 will be sent by electronic mode to all the members whose email IDs are registered with Kfin Technologies Limited, Registrar and Share Transfer Agent ("KFIN or KFintech" or RTA) or relevant Depository Participant(s) as at 01st September, 2023. The dispatch of the Notice of AGM and Annual Report for FY 2022-23 to the members through email has been completed on 06th September, 2023. In compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 ("the Act") read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration)

form or in dematerialized form), the facility to exercise their vote on the resolutions proposed to be considered in the 15th AGM through remote e-voting (Instapoll) during the proceedings of the meeting (collectively referred as E-Voting). The instructions for e-voting are provided in the notice of the AGM. Members whose email ids are not registered with the Depository Participants(s) and are holding shares in dematerialized mode are requested to register their email IDs and Mobile numbers with the concerned Depositories through their DPs. Members holding shares in physical mode are requested to send a request for

registration of email IDs and mobile number to the RTA at einward.ris@kfintech.com providing Folio no. Number of member, scanned copy of the share certificate

Rules, 2014, as amended and Regulation 44 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015, the Company is providing to all its members (holding shares either in physical

Members are hereby informed that:

- The remote e-voting period shall commence on Tuesday, September 26, 2023 at 09:00 a.m. (IST) and ends on Thursday, September 28, 2023 at 05:00 p.m. (IST).
- The cut-off/ record date for determining the eligibility to vote by e-voting system at the AGM shall be Friday, September 22, 2023. Aperson, whose name appears in the Register of Members / beneficial owners as on the Cut-off/ record date i.e.. Friday. September 22, 2023 shall be entitled to

The voting rights of members shall be in proportion to their shares in the paid-up share capital of the Company as on the cut-off date.

- avail the facility of remote e-voting or voting of AGM. Any person who acquires shares of the Company and becomes member of the Company after dispatch of Notice of the AGM and holding shares as on the
- cut-off date i.e. September 01st, 2023 may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@kfintech.com However if he/she is already registered with KFintech for remote e-voting then he/she can use his/her existing User ID and password for casting the vote. Members may note that:
- The remote e-voting shall not be allowed beyond 05:00 p.m. (IST) on Thursday, September 28, 2023.

(front & back both). PAN (self-attested scanned copy of PAN Card) for registering email ID.

- b. The facility for voting will use also be made available during the AGM and to those members present in the AGM through VC/OAVM who have not cast on the resolutions through remote voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through the Instapoll system during the AGM.
- c. the members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to avail the facility of e-voting. Only persons whose names are recorded in the registers of the members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut off
- d. dates shall be entitled to avail the facility of e-voting.
- 7. A copy of the Notice of the AGM along with the Annual Report for the Year Ended March 31, 2023 interalia indicating the process and manner of remote e-voting and e-voting during AGM have been sent by electronic mode to all those members whose email address are registered with the Company / its Registrar &
- Transfer Agent (RTA) or relevant Depositories in accordance with the aforesaid MCA Circulars. 8. Members may note that the Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2022-23 will also be available on the websites of the Company (at
- on the website of the service provider i.e. KFIN (https://evoting.kfintech.com/) in compliance with the relevant circulars. Additionally, members holding shares in (Physical/Demat) whose email IDs are not registered and in consequence the Annual Report, Notice of AGM and Evoting instructions cannot be serviced, may temporarily get their email address and mobile number provided with Kfintech, by accessing in the link

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx Members are requested to follow the process as guided to capture the email address and

mobile number for obtaining the soft copy of the notice of the AGM, Annual Report and e-voting instructions along with the User ID and Password. In case of any

www.easemytrip.com) website of the Stock Exchanges i.e. BSE Limited (www.bseindia.com), National Stock Exchange of India (www.nseindia.com) and the

- 1. In case of any query and/or grievance, in respect of voting by electronic means, Members may refer to the help & Frequently Asked Questions (FAQs) and E-Voting user manual available at the download section on the website (bottom corner) of our RTA at https://evoting.kfintech.com/ or contact at Email Id: evoting@kfintech.com or may also call RTA at toll free No. - 1-800-309-4001 for any further clarifications.
- 2. Members who may require any technical assistance or support before or during the AGM are requested to contact KFintech at toll free number 1-800-309-4001 or write to them at evoting@kfintech.com

For Easy Trip Planners Limited

Priyanka Tiwari

Group Company Secretary and Chief Compliance Officer



Toll-free number: 1800 103 1906 | Visit: www.bankofindia.co.in

financialexp.epapr.in

Place: Delhi

Date: September 06, 2023

queries, member may write to einward.ris@kfintech.com

ह./- अधिकृत प्राधिकारी, एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड

COURT NOTICE

In The Court Of Sh. Mohinder Partap Singh Libra Civil Judge (Junior Division)-20, Jalandhar M/s Dainik Savera News And Media Network Vs.

Track Media CNR NO: PBJL02-000877-2021 Next Date: 29-09-2023 Suit For Grant Of Decree For Recovery

Of Rs. 23789.00/-Publication Issued To: 1. Track Media Through Its Authorized Signatory Sh. Ajay Gupta, G2-160, Sector-6, Vaishali Ghaziabad Also At 257-c Khanna Nagar Jwalapur Haridwar

Ajay Gupta Authorized Signatory M/s Track Media G2-160, Sector 6 Vaishali Ghaziabad Also At 257-c Khanna Nagar Jwalapur Haridwar

In above titled case, the defendant(s)/ respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant(s)/respondent(s) should appear in person or through counsel on 29-09-2023 at 10:00 a.m. for details logon to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=Jalandhar Civil Judge (Junior Division)- 20

Jalandhar

Criminal Courts, Ludhiana Judicial Magistrate- Ist Class, Ludhiana next date, purpose of case, orders and judgments as well as other case information is available on http://districts.ecourts.gov.in/ludhiana

M/s Stepway Sales Corporarion Itd M/s Nanak Book Depot CNR NO: PBLD03-007912-2021 Date: 09-10-2023 Publication Issued To: M/s Nanak Book

Depot Address- Shop No 223, Ganesh Marg, Shri Gopal Nagar, 60 Feet Road, Mahesh Nagar, Rajasthan Through Its Prop. Nanak Ram Whereas it has proved to the satisfaction of this court that you, the above named accused/accused persons can't be served in thr ordinary way of service, hence this proclamation under 82 of code of criminal

procedure is hereby issued against you with a direction that you should appear personally before this court on 09-10-2023 at 10:00 a.m. or within 30 days from the date of publication of this proclamation. take notice that, in case of default on your part to appear as directed above the above said case will be heard and determined as per law, in your absence. for details logon to:

https://highcourtchd.gov.in/?trs=district_n otice&district=ludhiana JMIC Ludhiana

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of advertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in

any manner whatsoever.



स आई एन : L63090DL2008PLC179041

पंजीकृत कार्यालय : २२३, एफ आई ई, पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली १९००€२, इंडिया

m www.easemytrip.com | M emt.secretarial@easemytrip.com

15वीं वार्षिक आम बैठक और रिमोट ई-वोटिंग सूचना के संबंध में कंपनी के सदस्यों को सूचना

इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि ईजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड के सदस्य की पंद्रहवीं (15वीं) वार्षिक आम बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 29 सितंबर 2023 को शाम 04:00 बजे भारतीय मानक समय ("आईएसटी") वीडियो के माध्यम से आयोजित की जाएगी। 15वीं एजीएम के नोटिस में निर्धारित व्यवसाय को संचालित करने के लिए कॉन्फ्रेंसिंग / अन्य ऑडियो-विज्अल साधन ("ओएवीएम")।

13 जनवरी 2021 के सामान्य परिपत्र संख्या 02/2021 के अनुसार, 5 मई 2020 के सामान्य परिपत्र संख्या 20/2020, 13 अप्रैल 2020 के 17/2020, 8 अप्रैल 2020 के 14/2020 के साथ पढ़ा गया। इस संबंध में नवीनतम परिपत्र 2/2022 दिनांक 05 मई, 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) द्वारा जारी किया गया और सेबी परिपत्र संख्या परिपत्र संख्या के अनुसार जारी किया गया। नोटिस वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए एजीएम, एकीकृत रिपोर्ट और वार्षिक वित्तीय विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा उन सभी सदस्यों को भेजे जाएंगे जिनकी ईमेल आईडी केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट ("केएफआईएन या केफिनटेक" या आरटीए) के साथ पंजीकृत हैं।) या 01 सितंबर, 2023 तक प्रासंगिक डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। सदस्यों को ईमेल के माध्यम से वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट भेजने का काम 06 सितंबर, 2023 को पूरा हो गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 108 के प्रावधानों के अनुपालन में, संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 20 और सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 के विनियम 44 के साथ पठित कंपनी अपने सभी सदस्यों (भौतिक रूप में या डीमटेरियलाइज्ड रूप में शेयर रखने वाले) को कार्यवाही के दौरान रिमोट ई-वोटिंग (इंस्टापोल) के माध्यम से 15वीं एजीएम में विचार किए जाने वाले प्रस्तावित प्रस्तावों पर अपने वोट का प्रयोग करने की सुविधा प्रदान कर रही है। बैठक की (सामूहिक रूप से ई-वोटिंग के रूप में संदर्भित)। ई-वोटिंग के निर्देश एजीएम के नोटिस में दिए गए हैं।

जिन सदस्यों की ईमेल आईडी डिपॉजिटरी प्रतिभागियों के साथ पंजीकृत नहीं हैं और उनके पास डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर हैं, उनसे अनुरोध है कि वे अपने डीपी के माध्यम से संबंधित ढिपॉजिटरी के साथ अपनी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पंजीकृत करें। भौतिक मोड में शेयर रखने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे फोलियो नंबर प्रदान करते हुए

einward.ris@kfintech.com पर आरटीए को ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के पंजीकरण के लिए अनुरोध भेजें। सदस्य की संख्या, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति (आगे और पीछे दोनों)। ईमेल आईडी पंजीकृत करने के लिए पैन (पैन कार्ड की खप्रमाणित स्कैन की गई प्रति)।

सदस्यों को इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि:

- 1. रिमोट ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 26 सितंबर, 2023 को सुबह 09:00 बजे (आईएसटी) शुरू होगी और गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को शाम 05:00 बजे समाप्त होगी। (आईएसटी)।
- 2. एजीएम में ई-वोटिंग प्रणाली द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफधरेकॉर्ड तिथि शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 होगी।
- 3. एक व्यक्ति, जिसका नाम कट-ऑफर्घरेकॉर्ड तिथि यानी शुक्रवार, 22 सितंबर, 2023 को सदस्योंध्लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में दिखाई देता है, वह रिमोट ई-वोटिंग या एजीएम की वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार होगा।
- 4. कोई भी व्यक्ति जो कंपनी के शेयर प्राप्त करता है और एजीएम की सूचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट-ऑफ तिथि यानी 01 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह अनुरोध भेजकर लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। evoting@kfintech.com हालाँकि यदि वह रिमोट ई-वोटिंग के लिए पहले से ही KFintech के साथ पंजीकृत है तो वह
- बोट डालने के लिए अपने मौजूदा यूजर आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है।
- सदस्य ध्यान दें कि:
- ए। शाम 05:00 बजे के बाद रिमोट ई-वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। (IST) गुरुवार, 28 सितंबर, 2023 को।
- बी। मतदान की सुविधा एजीएम के दौरान भी उपलब्ध कराई जाएगी और वीसीध्ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में उपस्थित उन सदस्यों के लिए जिन्होंने रिमोट वोटिंग के माध्यम से प्रस्तावों पर विचार नहीं किया है और अन्यथा उन्हें ऐसा करने से रोका नहीं गया है, वे मतदान करने के पात्र होंगे। एजीएम के दौरान इंस्टापोल प्रणाली।
- सी। जिन सदस्यों ने एजीएम से पहले रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट डाला है, वे भी एजीएम में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार नहीं होंगे। डी। केवल वही व्यक्ति ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने के हकदार होंगे जिनके नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट ऑफ तिथियों
- पर दर्ज हैं। 6. सदस्यों का मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि के अनुसार कंपनी की चुकता शेयर पूंजी में उनके शेयरों के अनुपात में होगा।
- 7. 31 मार्च, 2023 को समाप्त वर्ष के लिए वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम के नोटिस की एक प्रति, जिसमें एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग और ई-वोटिंग की प्रक्रिया और तरीके का संकेत दिया गया है, उन सभी सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भेज दी गई है। जिनका ईमेल पता उपरोक्त एमसीए परिपत्रों के अनुसार कंपनी 🖊 उसके रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट (आरटीए) या संबंधित डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है।
- 8. सदस्य ध्यान दें कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए एजीएम की सूचना और वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइटों (www.easemytrip.com पर) स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई

तिमिटेड (www.bseindia.com) पर भी उपलब्द होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया (www.nseindia.com) और सेवा प्रदाता की वेबसाइट यानी KFIN

(https://evoting.kfintech.com/) पर प्रासंगिक परिपत्रों के अनुपालन में।

इसके अतिरिक्त, (भौतिकध्डीमैट) शेयर रखने वाले सदस्य जिनकी ईमेल आईडी पंजीकृत नहीं हैं और परिणामस्वरूप वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना और ई-वोटिंग निर्देशों की सेवा नहीं दी जा सकती है, वे अरथायी रूप से केफिनटेक के साथ अपना ईमेल पता और मोबाइल नंबर प्राप्त कर सकते हैं। लिंक

https://ris.kfintech.com/clientservices/mobilereg/mobileemailreg.aspx पर पहुंच कर सदस्यों से अनुरोध है कि वे एजीएम के नोटिस की सॉफ्ट कॉपी प्राप्त करने के लिए ईमेल पता और मोबाइल नंबर लेने के लिए निर्देशित प्रक्रिया का पालन करें। यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ वार्षिक रिपोर्ट और ई-वोटिंग निर्देश। किसी भी प्रश्न के मामले में, सदस्य einward.ris@kfintech.com पर लिख सकते हैं

- 1. इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान के संबंध में किसी भी प्रश्न औरध्या शिकायत के मामले में, सदस्य वेबसाइट पर ढाउनलोड अनुभाग (निचले कोने) पर उपलब्ध सहायता और अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्य) और ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का उल्लेख कर सकते हैं।) हमारे आरटीए को https://evoting.kfintech.com/ पर या ईमेल आईडी पर संपर्क करें:
- मअवजपदह / ापिदजमबी.बवल या किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के लिए आस्टीए को टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर भी कॉल कर सकते हैं।
- 2. जिन सदस्यों को एजीएम से पहले या उसके दौरान किसी तकनीकी सहायता या समर्थन की आवश्यकता हो सकती है, उनसे अनुरोध है कि वे टोल फ्री नंबर 1-800-309-4001 पर केफिनटेक से संपर्क करें या उन्हें evoting@kfintech.com पर लिखें।

5 संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001.

फोनः 011-23753827, 011-49498261, 011-49498285

दिनांक : 06 सितंबर, 2023 जगह : दिल्ली

आंचलिक कार्यालय, वसूली विभाग, प्रथम तल,

ई-नीलामी बिक्री सूचना

समूह कंपनी सचिव और मुख्य अनुपालन अधिकारी

इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड

एसडी /-

प्रियंका तिवारी

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 5, 6, 7, 8 एवं 9 के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (सरफेसी अधिनियम) के तहत बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति की ई-नीलामी बिक्री। नीचे उल्लिखित कर्जदार के खाते में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत निर्गत सूचना के अनुसार अधिकृत प्राधिकारी(याँ) द्वारा बँक के बकायाँ की वसूली हेतु "जहाँ है जैसे है" तथा "जो कुछ भी है वहीं है" के आधार पर इसकी बिक्री अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति पर कब्जा कर लिया गया है। **ई-नीलामी की तिथि एवं समय** : 26 **सितम्बर 2023 को 01:00 बजे अप. से 05:00 बजे अपराहन** के वीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित।

अचल सम्पत्तियों का विवरण

| _ | | | | | | | | |
|-----------|--|-------------------------------------|--|--------------------|---|--|---|----------------------------|
| क. सं. | शाखा का नाम, आईएफएससी कोड, खाता सं., दूरभाष नं. एवं ई-मेल | तीकानाम वकाया राशि (रू. लाख में) | चिन्हित सम्पत्तियाँ | कब्जे का प्रकार | सम्पत्ति के स्वामी का नाम | एमधारपी (स. लाख में) ईएमडी (स. लाख में) | सम्पत्तियों के निरीक्षण की तिथि सम्पर्क व्यक्ति | सरकारी बकावा वदि कोई हो |
| 1. | निजामुद्दीन वेस्ट शाखा आइएफएससी कोडः UCBA0000249 ईएमडी खाता सं. 02490210001172 nizamu@ucobank.co.in | तथा उस पर | चर्च रोड , भोगल, जंगपुरा, नई दिल्ली-110014 में स्थित प्लॉट नम्बर 11 के पूरे बेसमेंट से युक्त आवासीय सम्पत्ति। क्षेत्रफल 972 वर्ग फीट | भौतिक कब्जा | श्री सुधीर कुमार गुप्ता पुत्र श्री परसादी लाल गुप्ता | रू.48.00 लाख रू.4.80 लाख | 22.09.2023 शाखा प्रबंधक श्री दीपक कुशवाहा मोबाइलः 8910894042 | ज्ञात नहीं |
| 2. | लॉरॅंस रोड शाखा आईएफएससी कोडः UCBA0000990 ईएमडी खाता सं. 09900210002704 lawren@ucobank.co.in | | आवासीय सम्पत्ति डब्ल्यूजेड 252, दूसरी मंजिल, छत/टैरेस के अधिकार रहित, 544 वर्ग फीट, श्रीनगर एक्सर्टेशन गली नं.4, शकूरपुर, नई दिल्ली-110034 | भौतिक कब्जा | उषा गुप्ता | स्त.24.30 लाख स्त.2.43 लाख | 22.09.2023 शाखा प्रबंधक श्री इन्दरप्रीत सिंह साहनी मोबाइल: 8234059504 | ज्ञात नहीं |
| 3. | फरीदाबाद मुख्य शाखा आईएफएससी कोडः UCBA0000390 ईएमडी खाता सं. 03900210002223 farida@ucobank.co.in | तथा उस पर अप्रयुक्त व्याज | आवासीय सम्पत्ति फ्लैट नं. 1248, तीसरी मंजिल, ब्लॉक-ए, सेक्टर एमयू II, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश-203207 माप 40 वर्ग मीटर। | सांकेतिक कब्जा | श्रीमती सोनू रानी पत्नी अशोक कुमार | स्त्र.14.63 लाख स्त्र.1.46 लाख | 22.09.2023 शाखा प्रबंधक श्री रवि कुमार सिंह मोबाइलः 9910471123 | ज्ञात नहीं |
| | Safety record | | नेत आप शीमनी नेता माना (माना | i | | 00E200 * | T-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1 | |

अधिक पूछताछ तथा विवरण के लिए आप श्रीमती नेहा गुप्ता (मुख्य प्रबंधक) मोबाइलः 7352995388 अथवा श्री रोहित पाहुजा (वरिष्ठ प्रबंधक) मोबाइलः 9519517777 एवं रानी कुमारी (प्रबंधक) 8210925632 से सम्पर्क कर सकते हैं

नियम एवं शर्ते:-

www.readwhere.com

- 1. नीलामी विक्री केवल ई-विक्रय पोर्टल के माध्यम से "ऑनलाईन ई-नीलामी" होगी। सम्भावित क्रेताओं के लिए युआरएलः https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp नीलामी 26.09.2023 को 01:00 बजे अप. से 05:00 बजे अप. के बीच प्रत्येक 10 मिनट के असीमित विस्तार सहित उपर्युक्त सम्पत्ति के सम्मुख उल्लिखित समय (भा.मा.स.) के अनुसार होगी।
- सभी इच्छक बोलीदाताओं को अपना यूजर आईडी तथा पासवर्ड बनाने के लिए ई-नीलामी पोर्टल पर पंजीकरण कराऐंगे। बोलीदाताओं को सेवा प्रदाता (एमएसटीसी) द्वारा निर्धारित केवाईसी दस्ताबेज और पंजीकरण शुल्क प्रदान करके ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा। एक बार एमएसटीसी द्वारा केवाईसी दस्तावेजों के सत्यापन के बाद, पंजीकरण सभी केवाईसी दस्तावेजों और पंजीकरण शुल्क जमा करने की तारीख से अधिकतम दो कार्य दिवसों की अवधि के भीतर सक्रिय हो जाएगा।
- 3. इच्छ्क बोलीदाताओं को एमएसटीसी हेल्पडेस्कः 033-22901004 से अग्रिम में ही पोर्टल के साथ पंजीकृत होना होगा और लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है प्रचालन/पंजीकरण की स्थितिः ibapiop@mstcecommerce.com फाइनेंस/ईएमडी की स्थितिः ibapifin@mstcecommerce.com हेल्पलाइन ई-मेल आईडीः rranjan@mstcindia.co.in
- 4. इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने और ई-नीलामी बिक्री प्रक्रिया में भाग लेने से पहले नीलामी बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तो के लिए वेबसाइटः https://ibapi.in ध्यान से देखने की सलाह दी जाती है।

संबंधित विवरण के साथ बोलियां निर्धारित प्रारूप में केवल ऑनलाईन माध्यम से प्रस्तुत की जाएंगी।

- 6. उपरोक्त संपत्ति के लिए जमा धरोहर राशि (ईएमडी) पोर्टल पर पंजीकरण के बाद एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा केवल वॉलेट ऑफ सर्विस प्रोबाइडर (एमएसटीसी) में फंड ट्रांसफर के माध्यम से जमा की जाएगी।
- 7. ऑनलाइन जमा किये गये संलग्नक (यूटीआर सं. का उल्लेख करते हुए) सहित संविदा प्रपन्न की एक प्रति सम्बद्ध शाखा के अधिकृत प्राधिकारी /शाखा प्रबंधक, यूको बैंक, सम्बन्धित शाखाओं के पास प्रस्तुत करनी है। अथवा ई-मेल द्वारा इसकी सॉफ्ट प्रति ई-मेलः zonewdelhi.rec@ucobank.co.in पर भेजनी है।
- 8. बोली मूल्य न्यूनतम आरक्षित मूल्य (एमआरपी) के बराबर/अथवा अधिक होगा किन्तू **स.10,000/- (रूपये दस हजार मात्र)** के गुणांक में होना चाहिए। कृपया ध्यान दें कि प्रथम ऑनलाइन संविदा (एच1) जो ऑनलाइन फॉरवर्ड नीलामी के दौरान सिस्टम में आती है उसमें संविदाएं जमा करने की अन्तिम तिथि तक प्राप्त उच्चतम संविदाओं से उच्चतर बढोत्तरी की जा सकती है अर्थात प्रारम्भिक मुल्य से एक बढोत्तरी अथवा बढ़ोत्तरी के गुणक द्वारा प्रारम्भिक मूल्य से उच्चतर। नीलामी के दौरान, आउटबिंड से आने वाली अनुगामी संविदा का एचा रेट एचा रेट से एक बढ़ोत्तरी उच्चतर होना चाहिए अथवा बढ़ोत्तरी मूल्यों के गुणक में होना
- 9. सफल संविदाकारों को विक्रय के उसी दिन उपर्युक्त क्लॉज़ 7 में उल्लिखित माध्यम से ई-नीलामी विक्रय प्रक्रिया के बन्द होने के तुरन्त बाद संविदा राशि (पहले से प्रदत्त धरोहर राशि सहित) का 25 प्रतिशत जमा करना होगा। क्रय मुल्य का शेष 75 प्रतिशत अधेहस्ताक्षरी द्वारा सफल संविदाकार को स्वीकृति/पृष्टि के 15 दिनों के भीतर अदा करना होगा।
- 10. यदि सफल संविदाकार उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार संविदा राशि जमा करने में असफल हो जाता है तो संविदाकार द्वारा जमा की गयी राशि जब्त कर ली जायेगी।
- असफल संविदाकार(रों) की ज.ध.रा. ई-नीलामी विकय प्रक्रिया के बन्द होने पर लौटा दी जायेगी।
- 12. विक्रय बैंक की पुष्टि का विषय है। यदि कर्ज़दार/जमानती विक्रय से पूर्व सम्पूर्ण राशि बैंक को अदा कर देता है तो कोई विक्रय संचालित नहीं होगा।
- 13. सम्पत्ति की बिकी "जहाँ है जैसे है तथा जो है यही है" आधार पर की जायेगी और इच्छ्क संविदाकार को बैंक के प्रभारों के अतिरिक्त किसी प्राधिकरण की सम्पत्ति के सम्बन्ध में ठोस पृष्ठताष्ठ कर लेनी चाहिए और अपनी संविदा प्रस्तुत करने से पूर्व सम्पत्ति के स्वामित्व, गुणवत्ता तथा मात्रा के विषय में स्वयं को सन्तुष्ट कर लेना चाहिए। ऑनलाइन संविदा जमा करने के पश्चात विक्रय हेतु रखी सम्पत्ति, प्रभारों, किसी अन्य मामले में सम्पत्ति पर ऋणभारों आदि किसी भी प्रकृति के सम्बन्ध में किसी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जायेगा। 14. अधोहस्ताक्षरी को बिना किसी पूर्व सुचना के तथा बिना कोई कारण बताए किसी संबिदा को स्वीकार या अस्वीकार करने, बिक्रय को स्थगित/बिलम्बित/निरस्त करने /किसी नियम तथा शर्तो को परिवर्तित करने का पूर्ण
- अधिकार एवं विशेषाधिकार है। 15. केता को विकय प्रमाणपत्र पंजीकरण प्रभार, सरकार को देय समस्त विधिक बकाये, कर एवं दरें तथा सम्पत्ति से सम्बद्ध वर्तमान तथा भावी व्यय सहित स्टैम्प शुल्क, प्रभार आदि वहन करने होंगे। विकय प्रमाणपत्र सफल
- संविदाकार के नाम से ही निर्गत किया जायेगा।
- 16. यह विक्रय सरफेसी अधिनियम / नियम 2002 में निर्धारित शर्तो तथा उपर्युक्त शर्तो के अध्यधीन है।

यह प्रकाशन सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत उपर्युक्त कर्जदारों/जमानतियों/बंधककर्ताओं के लिए 15 दिवसीय विक्रय सचना भी है दिनांक: 07.09.2023 अधिकत प्राधिकारी.

यूको वैंक, अंचल कार्यालय, वसूली विभाग, नई दिल्ली स्थानः नई दिल्ली

AMBIT Finvest AMBIT FINVEST PRIVATE LIMITED

Pragati ke partner कॉर्पोरेट कार्यालय : कनिकया वॉल स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, ए 506-ए510, अंधेरी-कुर्ला रोड, चकला, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400093 कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेतु) (प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(1) के अन्तर्गत)

जैसा कि एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पंजीकृत कार्यालय एम्बिट हाउस, ४४९, सेनापित बापट मार्ग, लोअर परेल, मुम्बई-४०००१३, कॉर्पोरेट कार्यालय कनकिया वॉल स्ट्रीट, 5वीं मंजिल, ए 506-510, अंधेरी-कुर्ला रोड, अंधेरी पूर्व, मुम्बई-400093 पर है, के अधिकृत प्राधिकारी ने वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण एवं प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का 54) के तहत तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शिक्तयों के उपयोग में निम्निलिखित कर्जदारों से सूचना में उल्लिखित तथा यहाँ भी नीचे उल्लिखित राशि का कथित सुचना की प्राप्ति की तिथि से साठ (60) दिनों के भीतर पुनर्भुगतान करने को कहते हुए मांग सुचना जारी की। निम्नलिखित कर्जदारों द्वारा राशि के पुनर्भुगतान में असफल रहने के कारण निम्नलिखित कर्जदारों और जनसामान्य को एतद्वारा सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के उपयोग में नीचे वर्णित सम्पत्तियों पर 25.01.2023 को कब्जा कर लिया है।

| - 1 | | | | | | |
|-----|----------------------------------|--------------------------|--|--------------------------------|--|--|
| | कर्जदारों/सह-कर्जदारों/जमानतियों | | अचल सम्पत्ति∕बंधक सम्पत्तियों का विवरण | कब्जा करने की 1 | | |
| ı | के नाम तथा ऋण खाता संख्या | राशि | | कब्जे का प्रका | | |
| | 1) रतन धाबा | 15/02/2023 | संपत्ति सं. आरजेड- 358 का समस्त भाग, गली नं. 19, | 05.09.2023 05.09.202 | | |
| ı | 2) विकास कुमार | ₹. 43,47,656.04/- | भूतल, छत के अधिकार सहित, क्षेत्रफल माप 125 वर्ग गज, | भौतिक कब्जा | | |
| ı | 3)रतन चौधरी | (रुपये तैंतालीस लाख | खसरा नंबर 411 में से, तुगलकाबाद एक्सटेंशन नई दिल्ली | | | |
| ı | 4) कुसुम लैन नं. | सैंतालीस हजार छह सौ | _ | ı | | |
| ı | DEL000000031772 | छप्पन और चार पैसे मात्र) | -110 019 पर स्थित, उक्त संपत्ति की सीमाः उत्तरः सड़क | I | | |
| ı | DEL000000036591 | तिथि 15.02.2023 तक | 20 फीट चौड़ी दक्षिण: प्लॉट नं. 36 पूर्व: अन्य प्लॉट | | | |
| ı | | | पश्चिमः प्लॉट नं. 44 | | | |
| ١ | | | 110 11 111 | | | |
| | | | | | | |

विशेष रूप से कर्जदार और जनसामान्य को एतद्वारा सम्पत्तियों से किसी प्रकार का संव्यवहार न करने की चेतावनी दी जाती है और सम्पत्तियों के साथ संव्यवहार यहाँ ऊपर उल्लिखित राशि तथा ब्याज के लिए एम्बिट फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के चार्ज के अधीन होगा। प्रतिभूत आस्ति को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय-सीमा के परिप्रेक्ष्य में कर्जदार का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

तिथि : 07.09.2023, स्थान : दिल्ली

आरबीएल बैंक लिमिटेड प्रशानिक कार्यालय : प्रथम लेन, शाहपुरी, कोल्हापुर-416001

RBLBANK क्षेत्रीय संचालन केन्द्रः प्रथम तल, बिल्डिंग नं. 1, मोदी मिल्स कम्पाउण्ड, ओखला इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, फेज-3, नई दिल्ली- 110020

सांकेतिक कब्जे की सूचना

यत: वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पुनर्गठन एवं प्रतिभृति-हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 का संख्यांक 54) के अन्तर्गत एवं धारा 13(12) प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के सपठित नियम 9 के अधीन प्रदल शक्तियों का प्रयोग करते हए, आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी द्वारा निम्नलिखित ऋणी/जमानतदारों/ बन्धककर्ताओं को मांग सूचना जारी की गई, जिसमें नोटिस में वर्णित राशि को उक्त नोटिस की पावती की तारीख से 60 दिनों के भीतर, भूगतान करने के लिये कहा गया था। ऋणी/जमानतदारों द्वारा राशि के पूर्नभूगतान करने में असफल हो जाने पर, ऋणी/जमानतदारों को और आम जनता को एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

अधोहस्ताक्षरी आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) सपठित प्रतिभृति हित (प्रवतर्न) अधिनियम

2002 के नियम 9 के अन्तर्गत निम्न वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा प्राप्त कर लिया है। सम्पत्तियों का वर्णन/ मांग सचना कब्जे की कणी/सर-कणी/जमानतरार्थे/

| बंधककर्ताओं का नाम एवं पता | लागू की जाने वाली प्रतिभूत आस्ति का पता | दिनांक | बकाया साश (रूपये) | दिनांक (सांकेतिक) |
|--|---|---|--|----------------------|
| सौरम सिंह ए-3/1006, साउध गमरी एक्सटेंशन, गली नंबर 1, गढी मेंड् दिल्ली, दिल्ली-110053 बहां भी: प्लॉट नंबर बी-6/10, प्राउंड फ्लोर, अंकुर विहार, प्राम सादुल्लाबाद, परगना- लोनी, तहसील एवं जिला-गा 201102 बहां भी: प्राउंड फ्लोर, ए-440, खसरा नं. 154, सोम बाजा पुश्ता मेन रोड, गामरी, दिल्ली-110053, अंजू देवी ए-3/1006, सा एक्सटेंशन, गली नंबर 1, गढी मेंडू, उत्तर पूर्वी दिल्ली, दिल्ली-110053 प्लॉट नंबर बी-6/10, प्राउंड फ्लोर, डीएलएफ अंकुर विहार, प्राम स् परगना- लोनी, तहसील एवं जिला-गाजियाबाद-201102 | डीएलएफ जियाबाद- प्रस्तोर, डीएलएफ र 4-1/2, हदबस्त सादुह्या उथगामरी, लोनी, तहसील उ यहां भी: गाजियाबाद, | अंकुर विहार, बाद, परगना- एवं जिला- उत्तर प्रदेश- | (रूपये चौदह लाख अठ्यासी हजार चार सौ इक्कीस एवं तरेपन पैसे मात्र) से आगे का व्याज अनुबंध की दर पर, | 05-09-2023 |
| | • | | | |

ऋणी /सह-ऋणी /जमानतदारों को विशेष रूप से एवं आम जनता को साधारणतया एतदहारा सावधान किया जाता है कि इस सम्पत्ति बाबत कोई संव्यवहार नहीं करे और इस सम्पत्ति के बाबत किया गया कोई भी संव्यवहार आरबीएल बैंक लिमिटेड के प्रभार के अध्यधीन होगा।

प्राधिकृत अधिकारी आरबीएल बैंक लिमिटेड दिनांकः 06-09-2023 स्थानः गाजीयाबाद



एचएफसीएल लिमिटेड

CIN: L64200HP1987PLC007466

पंजी. कार्यालय: ८, इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लैक्स, चम्बाघाट, सोलन–173213, (हिमाचल प्रदेश) **फोन नं.:** 91-1792-230644, **फैक्स नं. :** 91-1792-231902

वेबसाईट: www.hfcl.com ई—मेल: secretarial@hfcl.com

36वीं वार्षिक आम बैठक (एजीएम), ई-वोटिंग, रिमोट ई-वोटिंग, रिकॉर्ड तिथि और बुक क्लोजर की सूचना

(यह सूचना एजीएम के संबंध में 05 सितंबर, 2023 को प्रकाशित हमारे पहले नोटिस के अतिरिक्त है) एतदद्वारा सुचित किया जाता है कि

1. एचएफसीएल लिमिटेड ("कंपनी") की 36वीं वार्षिक आम बैठक शनिवार, 30 सितम्बर, 2023 को 11.00 बजे पूर्वा. (भा.मा.स.) वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ('वीसी')/अन्य ऑंडियो विजुअल साधनों की('ओएवीएम') सुविधा से कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के लागू प्रावधानों, इसके तहत बनाए गए नियम और सेबी (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 ("सेबी सूचीकरण विनियम") के पठित, कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय ("एमसीए परिपत्र") जारी किये गये सामान्य परिपत्र संख्या 14/2020,17/2020, 20/2020, 02/2021,19/2021, 21/2021 तथा 02/2022 क्रमशः दिनांक 8 अप्रैल, २०२०, १३ अप्रैल, २०२०, ५ मई, २०२०, १३ जनवरी, २०२१, ०८ दिसम्बर, २०२१,१४ दिसम्बर, २०२१,५ मई, २०२२ और २८ दिसंबर, २०२२ एवं एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी परिपत्र")द्वारा जारी किये गये परिपत्र संख्या सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएम01 / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांक 12 मई 2020, सीएमडी02 / सीआईआर / पी / 2021 / 11 दिनांक 15 जनवरी 2021 और सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी2 / सीआईआर / पी / 2022 / 62 दिनांक 13 मई 2022 और सेबी / एचओ / सीएफडी / पीओडी—2 / पी / सीआईआर / 2023 / 4 दिनांक 05 जनवरी 2023 के उचित अनुपालन में ,एजीएम आमंत्रण के दिनांक 01 सितंबर, 2023 के नोटिस में निर्धारित साधारण और विशेष व्यवसाय को निष्पादित करने के लिए आयोजित होने वाली है।

- संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 18 के साथ पठित अधिनियम की धारा 101 और 136 के प्रावधानों के अनुपालन में, विवरण और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ एजीएम में किए जाने वाले व्यवसाय को निर्धारित करने वाला नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से केवल उन सदस्यों को भेजी गई है जिनकी ई–मेल आईडी डिपॉजिटरी/डिपॉजिटरी प्रतिभागियों/कंपनी/आरटीए के साथ पंजीकृत हैं, और जिनके नाम शुक्रवार, 25 अगस्त, 2023 तक डिपॉजिटरी द्वारा बनाए गए सदस्यों के कंपनी / लाभकारी मालिकों का रजिस्टर में दिखाई देते हैं। एजीएम की सूचना सहित वार्षिक रिपोर्ट कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट यानी बीएसई लिमिटेड www.bseindia.com पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड www.nseindia.com पर और एनएसडीएल की वेबसाइट www.evoting.nsdl.com पर भी उपलब्ध है।
- ई—मेल के माध्यम से एजीएम की सूचना का प्रेषण 06 सितंबर, 2023 को पूरा हो चुका है।

इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से रिमोट वोटिंग ("रिमोट ई-वोटिंग") और एजीएम के दौरान ई-वोटिंग

- कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम,2014 के नियम 20 यथासंशोधित के साथ पठित अधिनियम की धारा 108,और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 44 और सामान्य बैठकों (एसएस) पर सचिवीय मानक–2 के अनुसार) के अनुपालन में, भौतिक रूप में या अभौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा प्रदान एजीएम के स्थान **("रिमोट) ई—वोटिंग")** के अलावा किसी अन्य स्थान से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग प्रणाली का उपयोग करके एजीएम के नोटिस में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर अपना वोट डालने की सुविधा प्रदान की जाती है। सभी सदस्यों को सुचित किया जाता है किः
- i) एजीएम के नोटिस में बताए गए व्यवसाय को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वोटिंग के माध्यम से किया जा सकता है;
- ii) रिमोट ई-वोटिंग बुधवार, 27 सितंबर, 2023 (प्रातः 9.00 बजे भामास) से शुरू होगी;
- iii) रिमोट ई-वोटिंग शुक्रवार, 29 सितंबर, 2023 (शाम 5.00 बजे भामास) को समाप्त होगी और इस समय के बाद इसकी अनुमित नहीं दी जाएगी; iv) एजीएम के दौरान इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों और / या ई-वोटिंग द्वारा मतदान करने की पात्रता निर्धारित करने की कट-ऑफ तारीख शनिवार, 23 सितंबर, 2023 है। सदस्य के मतदान अधिकार कट-ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को कंपनी की इक्विटी शेयर पूंजी में शेयर में उनके भूगतान
- मूल्य के अनुपात में होंगे। v) कोई भी व्यक्ति, जो एजीएम की सुचना भेजने के बाद कंपनी का सदस्य बन जाता है और कट—ऑफ तिथि यानी शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को शेयर रखता है, वह evoting@nsdl.co.in पर या कंपनी को secretarial@hfcl.com पर या आरटीए को एमसीएस शेयर ट्रांसफर एजेंट लिमिटेड (यूनिटः एचएफ सीएल लिमिटेड) को admin@mcsregistrars.com पर अपना फोलियो नंबर/डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी लिखकर एक अनुरोध भेजकर यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त कर सकता है। हालाँकि, यदि कोई सदस्य रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए एनएसडीएल के साथ पहले से ही पंजीकृत है,तो सदस्य एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए मौजूदा उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग कर सकता है;
- vi) सदस्य कृपया ध्यान दें किः
- क) एक बार सदस्य द्वारा किसी प्रस्ताव पर वोट डालने के बाद, सदस्य को बाद में इसे बदलने की अनुमित नहीं दी जाएगी; ख) एजीएम में एनएसडीएल प्लेटफॉर्म पर ई-वोटिंग की सुविधा भी उपलब्ध होगी;
- ग) जिन सदस्यों ने रिमोट ई-वोटिंग के माध्यम से अपने मत का प्रयोग किया है, वे एजीएम में भाग ले सकते हैं लेकिन एजीएम में दोबारा वोट डालने
- घ) एक व्यक्ति जिसका नाम सदस्यों के रजिस्टर में या डिपॉजिटरी द्वारा रखे गए लाभकारी मालिकों के रजिस्टर में कट-ऑफ तिथि, यानी, शनिवार, 23 सितंबर, 2023 के अनुसार नाम दर्ज है, केवल वह एजीएम में ई-वोटिंग के साथ-साथ रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा का लाभ उठाने का हकदार
- ड) एक व्यक्ति जो कट–ऑफ तिथि पर सदस्य नहीं है, उसे इस नोटिस को केवल सुचना के उद्देश्य से विचार करना चाहिए। vii) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के लिए विस्तृत प्रक्रिया और निर्देश एजीएम के नोटिस और प्रत्येक शेयरधारक को भेजे गए ई-मेल में दिए गए हैं।
- viii) रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग की सुविधा से जुड़े किसी भी प्रश्न या शिकायत के मामले में, सदस्य www.evoting.nsdl.com पर 'डाउनलोड' अनुभाग पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और सदस्यों के लिए रिमोट ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या टोल फ्री नंबर: 1800–222–990 पर कॉल करें या सुश्री पल्लवी म्हात्रे, प्रबंधक, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल), ट्रेड वर्ल्ड, 'ए' विंग, चौथी मंजिल, कमला मिल्स कंपाउंड, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल,मुंबई-400013,निर्दिष्ट ई-मेल पतेः pallavid@nsdl.co.in/evoting@nsdl.co.in पर या टेलीफोन नंबर +91-22-24994545 से संपर्क करें।
- ix) कंपनी के निदेशक मंडल ने अंकित मूल्य 1/- रु. प्रति के 20: यानी रु. 0.20/- (केवल बीस पैसे) प्रति इक्विटी शेयर की दर से अंतिम लाभांश की सिफारिश की है। आगामी एजीएम में सदस्यों द्वारा अनुमोदित होने पर अंतिम लाभांश का भूगतान एजीएम के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। इसके अलावा कपया आयकर अधिनियम 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत लाभांश पर कर स्रोत की कटौती के संबंध में शेयरधारकों को दिनांक 08 जून, 2023 के हमारे ई-मेल संचार को देखें।
- x) कंपनी ने एजीएम में मंजूरी मिलने पर 31 मार्च, 2023 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए अंतिम लाभांश के लिए सदस्यों की पात्रता निर्धारित करने के लिए शनिवार, 23 सितंबर, 2023 को रिकॉर्ड तिथि के रूप में तय किया है।
- xi) श्री बलदेव सिंह कश्तवाल (एफसीएस –3616 और सीओपी नंबर 3169), प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को एजीएम के दौरान, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपूर्ण रिमोट ई-वोटिंग प्रक्रिया और ई-वोटिंग की जांच के लिए कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।
- xii) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, एजीएम में भाग लेने और मतदान करने के अधिकार वाले सदस्य, अपनी ओर से भाग लेने और मतदान करने के लिए एक प्रॉक्सी नियुक्त करने का हकदार है और प्रॉक्सी को कंपनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। चुंकि, यह एजीएम एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जा रही है, इसलिए सदस्यों की भौतिक उपस्थिति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है। तदनुसार, एमसीए परिपत्रों और सेबी परिपत्रों के अनुसार, सदस्यों द्वारा प्रॉक्सी की नियक्ति की सुविधा इस एजीएम के लिए उपलब्ध नहीं होगी और इसलिए एजीएम का प्रॉक्सी फॉर्म, उपस्थिति पर्ची और रूट मैप नोटिस के साथ संलग्न नहीं है। हालाँकि, जो कॉर्पोरेट सदस्य अधिनियम की धारा 113 के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से एजीएम में भाग लेने के लिए या एजीएम के दौरान रिमोट ई-वोटिंग / ई-वोटिंग के माध्यम से वोट करने के लिए अपने अधिकृत प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं, जैसा भी मामला हो, तो उनसे अनुरोध किया जाता है कि वे बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित सत्य प्रति संवीक्षक को scrutinizer@hfcl.com पर ई-मेल भेजें, साथ ही इसकी एक प्रति एनएसडीएल को evoting@nsdl.co.in पर और कंपनी को secretarial@hfcl.com पर भी भेजें।
- xiii) जिन शेयरधारकों के पास भौतिक रूप में शेयर हैं और उन्होंने कंपनी के साथ अपने ई—मेल पते पंजीकृत/अपडेट नहीं किए हैं, वे विधिवत भरे हुए और हस्ताक्षरित फॉर्म आईएसआर-1 (पैन, केवाईसी विवरण दर्ज करने) या उसमें परिवर्तन/अद्यतन के लिए फॉर्म) भेजकर अपना पंजीकरण/अपडेट करा सकते हैं। यह फॉर्म कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com पर,कंपनी के आरटीए को admin@mcsregistrars.com पर या कंपनी के सचिवीय विभाग को secretarial@hfcl.com पर ई-मेल द्वारा उपलब्ध है। डीमटेरियलाइज्ड मोड में शेयर रखने वाले शेयरधारक अपने ई-मेल पते को पंजीकत / अपडेट करने के लिए अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागियों से संपर्क कर सकते हैं / लिख सकते हैं ।

अध्यक्ष या उनके द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा मतदान परिणामों की घोषणा के बाद, बैठक के समापन के 2 कार्य दिवसों के भीतर संवीक्षक की समेकित रिपोर्ट के साथ मतदान का परिणाम कंपनी की वेबसाइट www.hfcl.com, एनएसडीएल की वेबसाइट www.nsdl.com और स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट, यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई)

www.nseindia.com पर और बीएसई लिमिटेड (बीएसई) www.bseindia.com पर भी डाले जाएंगे। अपेक्षित संख्या में वोट प्राप्त होने के अधीन, प्रस्तावों को 36वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख यानी 30 सितंबर, 2023 को पारित माना जाएगा। बही बंदी

एतदद्वारा यह भी नोटिस दिया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 10 और सेबी (सूचीबद्धता दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 42 के अनुसार, एजीएम और लाभांश के प्रयोजन के लिए सदस्यों के रजिस्टर और कंपनी के शेयर ट्रांसफर बुक्स सोमवार, 25 सितंबर, 2023 से शनिवार, 30 सितंबर, 2023 (दोनों दिन शामिल) तक बंद रहेंगी। कृते एचएफसीएल लिमिटेड

(मनोज बैद)

अध्यक्ष एवं कम्पनी सचिव

दिनांकः 06 सितंबर, 2023

स्थान: नई दिल्ली























